

## ॥ हयग्रीवस्तुतिः ॥

ओं ॥ लसदास्य हयग्रीव लसदोष्ठद्वयारुण ।  
लसदंतावलीशोभ हयग्रीव लसत्स्मित ॥ १ ॥

लसत्फाल हयग्रीव लसत्कुंतलमस्तक ।  
लसत्कर्ण हयग्रीव लसन्नयनपंकज ॥ २ ॥

लसद्वीक्ष हयग्रीव लसद्भ्रूमंडलद्वय ।  
लसद्ग्रीव हयग्रीव लसद्धस्त लसद्भुज ॥ ३ ॥

लसत्पार्श्व लसत्पृष्ठ कक्षांसयुग सुंदर ।  
लयग्रीव लसद्वक्षःस्तनमध्य वलित्रय ॥ ४ ॥

लयग्रीव लसत्कुक्षे लसद्रोमलतांचित ।  
लयग्रीव लसन्नाभे लसत्कटियुगांतर ॥ ५ ॥

लसदूरो हयग्रीव लसज्जानुयुगप्रभ ।  
लयग्रीव लसज्जंघायुगम पादांबुजद्वय ॥ ६ ॥

लयग्रीव लसत्पादतलरेखारुणद्युते ।  
लसन्नखांगुलीशोभ हयग्रीवातिसुंदर ॥ ७ ॥

लसत्किरीटकेयूरकंकणांगदकुंडल ।  
लयग्रीव लसद्रत्नहारकौस्तुभमंडन ॥ ८ ॥

लयग्रीव लसन्मध्य लसच्चंदनचर्चित ।  
लसद्रत्नमयाकल्प श्रीवत्सकृतभूषण ॥ ९ ॥

लयग्रीव लसत्कांचीरत्नकिंकिणिमेखल ।  
लयग्रीव लसद्वस्त्र मणिनूपुरमंडित ॥ १० ॥

हयग्रीवेन्दुबिंबस्थ लसच्छंखाक्षपुस्तक ।  
लसन्मुद्र हयग्रीव लसदिन्दुसमद्युते ॥ ११ ॥

हयग्रीव रमाहस्तरत्नकुंभस्मृतामृत ।  
हयग्रीव समानश्रीचतूरूपोपसेवित ॥ १२ ॥

हयग्रीव सुरश्रेष्ठ हयग्रीव सुरप्रिय ।  
हयग्रीव सुराराध्य जय शिष्ट जयेष्टद ॥ १३ ॥

हयग्रीव महावीर्य हयग्रीव महाबल ।  
हयग्रीव महाधैर्य जय दुष्टविनष्टिद ॥ १४ ॥

भयं मृत्युं क्षयं व्यर्थव्ययं नानामयं च मे ।  
हरे संहर दैत्यारे हरे नरहरे यथा ॥ १५ ॥

भक्तिं शक्तिं विरक्तिं च भुक्तिं मुक्तिं च युक्तिद ।  
हरे मे देहि दैत्यारे हरे नरहरे यथा ॥ १६ ॥

सदा सर्वेष्टलाभाय सर्वानिष्टनिवृत्तये ।  
हयग्रीवस्तुतिः पाद्या वादिराजयतीरिता ॥ १७ ॥

चिंतामणिर्हयग्रीवो वशे यस्य निषेवितः ।  
सोऽपि स्वार्थदो नृणां किमुतासौ हयाननः ॥ १८ ॥

॥ इति श्रीमद्वादिराजपूज्यचरणविरचितं हयग्रीवस्तुतिः संपूर्णं ॥